

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 06 नवंबर 2022

प्रश्न -1

निम्नलिखित में से किसकी जयंती को चिह्नित करने के लिए भारत में 'राष्ट्रीय एकता दिवस' मनाया जाता है?

- A) एपीजे अब्दुल कलाम
- B) राजेन्द्र प्रसाद
- C) सरदार वल्लभभाई पटेल
- D) सुभाष चंद्र बोस

सही उत्तर: C

राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

प्रश्न -2

निम्नलिखित में से किसे ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है?

- A) एंटोनियो ब्रिटो
- B) गेराल्डो अल्कमिन
- C) जायर बोल्सोनारो
- D) लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा

सही उत्तर: D

लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में उभरे, जिन्होंने एक करीबी मतदान में निवर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराया।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 06 नवंबर 2022

प्रश्न -3

निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 जीता है?

- A) कोलंबिया
- B) जर्मनी
- C) नाइजीरिया
- D) स्पेन

सही उत्तर: D

गत चैम्पियन स्पेन ने पहली बार फाइनल में पहुंची कोलंबिया को 1-0 से हराकर फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप जीत लिया।

प्रश्न -4

निम्नलिखित में से किस राज्य में C-295 विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया?

- A) गुजरात
- B) हिमाचल प्रदेश
- C) मध्य प्रदेश
- D) उत्तर प्रदेश

सही उत्तर: A

यूरोपीय रक्षा प्रमुख एयरबस और टाटा समूह का एक संघ गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए C-295 परिवहन विमान का निर्माण करेगा।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 06 नवंबर 2022

प्रश्न -5

भारत के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने 'SIMBEX' समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास किया?

- A) ऑस्ट्रेलिया
- B) जापान
- C) सिंगापुर
- D) US

सही उत्तर: C

भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में 26 से 30 अक्टूबर, 2022 तक सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (SIMBEX) के 29वें संस्करण का आयोजन किया।

प्रश्न -6

निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन पुरुष युगल खिताब जीता?

- A) बी. सुमीत रेड्डी और मनु अत्री
- B) ध्रुव कपिला और एम.आर. अर्जुन
- C) एस. संजीत और मनीष गुप्ता
- D) सात्विकसाईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेटी

सही उत्तर: D

सात्विकसाईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेटी की जोड़ी ने पुरुष युगल फाइनल में चीनी ताइपे के लू चिंग याओ और यांग पो हान की जोड़ी को सीधे गेम में हराकर फ्रेंच ओपन सुपर 750 का खिताब जीता।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 06 नवंबर 2022

प्रश्न -7

जम्मू और कश्मीर का विलय दिवस कब मनाया गया?

- A) 29 अक्टूबर
- B) 28 अक्टूबर
- C) 27 अक्टूबर
- D) 26 अक्टूबर

सही उत्तर: D

जम्मू और कश्मीर में हर साल 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में विलय दिवस मनाया जाता है।

प्रश्न -8

निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति के अंगरक्षक (PBG) को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट किया?

- A) अमित शाह
- B) द्रौपदी मुर्मू
- C) नरेंद्र मोदी
- D) राजनाथ सिंह

सही उत्तर: B

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान किया।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 06 नवंबर 2022

प्रश्न -9

निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है?

- A) दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
- B) हर्ट्सफील्ड-जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
- C) लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट
- D) टोक्यो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

सही उत्तर: B

OAG की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2022 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हर्ट्सफील्ड-जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था।

प्रश्न -10

किस बैंक ने "प्रोजेक्ट वेव" के तहत कई डिजिटल पहल शुरू की हैं?

- A) केनरा बैंक
- B) इंडियन बैंक
- C) पंजाब नेशनल बैंक
- D) SBI

सही उत्तर: B

PSU ऋणदाता इंडियन बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत सेवाओं के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए "प्रोजेक्ट वेव" के तहत कई डिजिटल पहल शुरू की हैं।